

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी 2019—फाल्गुन 2, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019

क्र. 3192-50-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 3 OF 2019

THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2019

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows:—**Short title.**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 2019.

Amendment of Section 35.

2. In Section 35 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), clause (f) shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Writ Petition (Civil) No. 1151/2017 Vidhi Centre for Legal Policy versus Union of India and others, pending in the Supreme Court of India, the issue pertains to abolition/amendment of various States and Central enactment where persons suffering from leprosy have been treated in discriminatory manner, despite leprosy is now a curable disease. In this regard Section 35 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) has been identified which contains discriminatory provisions in regard to leprosy patients. Therefore, it is decided to make suitable amendment.

2. Hence this Bill.

BHOPAL:**Dated the 14th February 2019****JAIVARDHAN SINGH***Member-In-Charge.*